



स मा चार

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विधानसभा के बजट सत्र का अवसान

सदन के नेता एवं नेता प्रतिपक्ष से मंत्रणा के बाद विधानसभा अध्यक्ष श्री
गौतम ने लिया निर्णय

भोपाल, 16 मार्च। मध्यप्रदेश फिर से कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए पंद्रहवीं विधानसभा के आठवें सत्र का अवसान निर्धारित तिथि से पहले ही कर दिया गया। मध्यप्रदेश विधानसभा का यह सत्र 26 मार्च तक निर्धारित था। मध्यप्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम ने इस संबंध में सदन के नेता एवं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान तथा नेता प्रतिपक्ष श्री कमलनाथ से विस्तृत चर्चा के उपरांत विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया।

माननीय अध्यक्ष श्री गौतम ने बताया कि इस समय कोविड-19 एक बार फिर से मध्यप्रदेश में अपने पांव पसार रहा है। वर्तमान में पांच विधायक एवं कुछ अधिकारी-कर्मचारीगण कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मध्यप्रदेश शासन ने भी परिस्थिति को देखते हुए भोपाल-इंदौर में रात्रिकालीन कर्फ्यू एवं अन्य शहरों में प्रभावी प्रोटोकाल पालन का निर्णय लिया है।

माननीय अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम ने कहा कि भले ही यह सत्र समय से पहले समाप्त हो गया हो लेकिन इस सत्र का प्रदेश के विकास एवं जनकल्याण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में यह मेरा पहला सत्र था और इस दौरान पक्ष-विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों, विधानसभा सचिवालय के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों एवं पत्रकार मित्रों का भरपूर सहयोग मिला है। इस सत्र में मध्यप्रदेश सरकार के वर्ष 2021-22 के बजट के साथ ही अन्य कई महत्वपूर्ण शासकीय कार्य पूर्ण हुए हैं। सदन में प्रदेश के विकास एवं जनकल्याण से जुड़े कई विषयों पर गंभीर एवं सार्थक चर्चा हुई है।

माननीय अध्यक्ष श्री गौतम ने कहा कि नए सदस्यों को अवसर प्रदान करने के लिए 15मार्च को प्रश्नकाल पूर्ण रूप से नए सदस्यों के लिए ही निर्धारित किया गया था। इस नवाचार के भी बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं।

वि.स./ज.स./21

(नरेन्द्र मिश्रा)

अवर सचिव